

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 4658

L

Unique Paper Code : 2416000004

Name of the Paper : Personal Financial Planning

Name of the Course : Common Group Prog. – SEC

Semester : IV

Duration : 1 Hour

Maximum Marks : 30

समय : 1 घण्टा

पूर्णांक : 30

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **all** questions. Each question has an internal choice.
3. Use of a simple calculator is allowed.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

P.T.O.

2. सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न में एक वैकल्पिक उत्तर दिया गया है।
3. साधारण कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति है।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. (a) "A well-designed financial plan may fail due to poor execution." Discuss with reference to financial discipline and behavioural factors?

(10)

OR

- (b) Describe the steps involved in the financial planning process. Illustrate how each step contributes to effective decision-making.

(10)

2. (a) Discuss the concept of systematic investment planning (SIP). How does it help investors manage market volatility?

(10)

OR

- (b) Critically evaluate Section 115BAC (new tax regime) vis-à-vis the old tax regime. Under what conditions is the new regime more beneficial?

(10)

3. (a) Explain the importance of health insurance. What factors should be considered while choosing a policy? (10)

OR

- (b) "Reverse Mortgage is beneficial for senior citizens who do not have adequate income to support themselves". Kindly elaborate. (10)

1. (क) "एक अच्छी तरह से तैयार की गई वित्तीय योजना भी खराब क्रियान्वयन के कारण विफल हो सकती है।" वित्तीय अनुशासन और व्यवहार संबंधी कारकों के संदर्भ में इस पर चर्चा करें। (10)

या

- (ख) वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों का वर्णन करें। उदाहरण देकर समझाएँ कि प्रत्येक चरण प्रभावी निर्णय लेने में कैसे योगदान देता है। (10)

2. (क) व्यवस्थित निवेश नियोजन (SIP) की अवधारणा पर चर्चा करें। यह निवेशकों को बाजार की अस्थिरता से निपटने में कैसे मदद करता है? (10)

या

P.T.O.

(ख) धारा 115BAC (नई कर व्यवस्था) का पुरानी कर व्यवस्था के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। किन परिस्थितियों में नई व्यवस्था अधिक लाभकारी है? (10)

3. (क) स्वास्थ्य बीमा के महत्व को स्पष्ट करें। पॉलिसी चुनते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? (10)

या

(ख) “रिवर्स मॉर्गेज उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभकारी है जिनकी आय स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है।” कृपया विस्तार से समझाएँ। (10)